



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 493] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 16, 1976/कार्तिक 25, 1898

No. 493] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 16, 1976/KARTIKA 25, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अग्रगण्य संकलन के रूप में रखा जा सक।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November 1976

S.O. 736(E)/IDRA/29B/75.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29B of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. S.O. 98(E)/IDRA/29B/73/1 dated the 16th February, 1973, namely:—

In the said notification, under Schedule II, in item (2), for the figures and words "50 per cent", the figures and words "40 per cent" shall be substituted.

In pursuance of sub-section (2) of section 29B of the said Act, the Central Government hereby specifies a period of six months from the date of publication of this notification in the Official Gazette as the period after the expiry of which no owner of any industrial undertaking which was previously exempted from the operation of sections 10, 11, 11A and 13 of the said Act by notification No. S.O. 98(E)/IDRA/29B/73/1 dated the 16th February, 1973 and which is not so exempt by virtue of this notification, shall carry on the business of such undertaking except under and in accordance with a licence issued in this behalf by the Central Government and in the case of State Governments except under and in accordance with the previous permission of the Central Government.

[No. F. 12(129)/LP/76]

A. K. GHOSH, Addl. Secy.

उद्योग मंत्रालय
औद्योगिक विकास विभाग
अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1976

का० आ० 736 (अ)/आई डी आर ए/29ब/75.—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29ब की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 98(अता०)/आई डी आर ए/29ब/73/1, तारीख 16 फरवरी, 1973 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची II के अधीन, मद (2) में, “50 प्रतिशत” अंकों और शब्द के स्थान पर “40 प्रतिशत” अंक और शब्द रखे जायेंगे ।

केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 29ब की उपधारा (2) के अनुसरण में राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छः मास की अवधि को उस अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जिसकी समाप्ति के पश्चात् किसी ऐसे औद्योगिक उपक्रम का स्वामी, जिसे अधिसूचना सं० का० आ० 98(अता०)/आई डी आर ए/29ब/73/1, तारीख 16 फरवरी, 1973 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10, 11, 11क और 13 के प्रवर्तन से पूर्व छूट प्राप्त थी और जिसे इस अधिसूचना के फलस्वरूप उस प्रकार छूट प्राप्त नहीं है, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त जारी की गई अनुज्ञप्ति के अधीन और उसके अनुसार के सिवाए तथा राज्य सरकारों की दशा में केन्द्रीय सरकार की पूर्ण अनुज्ञा के अधीन और उसके अनुसार के सिवाय ऐसे उपक्रम का कारबार नहीं करेगा ।

[सं० का० 12(129)/एल पी/76]

अरुण कुमार घोष, आर सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा
 नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
 NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976